



Mr.



Ms.

Model: Horoscope-Matching

Order No: 121852701


पुल्लिंग :	लिंग	: स्त्रीलिंग
25/11/1960 :	जन्म तिथि	: 25/07/1968
शुक्रवार :	दिन	: गुरुवार
घंटे 23:45:00 :	जन्म समय	: 18:30:00 घंटे
घटी 42:36:12 :	जन्म समय(घटी)	: 32:28:59 घटी
India :	देश	: India
Bareilly :	स्थान	: Muzaffarnagar
28:20:00 उत्तर :	अक्षांश	: 29:28:00 उत्तर
79:24:00 पूर्व :	रेखांश	: 77:42:00 पूर्व
82:30:00 पूर्व :	मध्य रेखांश	: 82:30:00 पूर्व
घंटे -00:12:24 :	स्थानिक संस्कार	: -00:19:12 घंटे
घंटे 00:00:00 :	ग्रीष्म संस्कार	: 00:00:00 घंटे
06:42:31 :	सूर्योदय	: 05:34:59
17:16:12 :	सूर्यास्त	: 19:15:58
23:18:33 :	चित्रपक्षीय अयनांश	: 23:25:02
सिंह :	लग्न	: धनु
सूर्य :	लग्न लग्नाधिपति	: गुरु
कुम्भ :	राशि	: कर्क
शनि :	राशि-स्वामी	: चन्द्र
शतभिषा :	नक्षत्र	: पुष्य
राहु :	नक्षत्र स्वामी	: शनि
2 :	चरण	: 2
व्याघात :	योग	: वज्र
बव :	करण	: किंस्तुघ्न
सा-सात्विक :	जन्म नामाक्षर	: हे-हेमा
धनु :	सूर्य राशि(पाश्चात्य)	: सिंह
शूद्र :	वर्ण	: विप्र
मानव :	वश्य	: जलचर
अश्व :	योनि	: मेष
राक्षस :	गण	: देव
आद्य :	नाड़ी	: मध्य
मेष :	वर्ग	: मेष

ग्रह अंश एवं विंशोत्तरी

विंशोत्तरी	अंश	राशि	ग्रह	राशि	अंश	विंशोत्तरी
राहु 11वर्ष 4मा 27दि	08:27:03	सिंह	लग्न	धनु	27:49:16	शनि 9वर्ष 9मा 24दि
केतु	10:11:12	वृश्चि	सूर्य	कर्क	09:12:20	सूर्य
24/04/2024	11:32:55	कुंभ	चंद्र	कर्क	09:46:36	20/05/2022
25/04/2031	25:09:57	मिथु व	मंगल	मिथु	29:19:14	20/05/2028
केतु 20/09/2024	20:30:46	तुला	बुध	मिथु	25:13:34	सूर्य 07/09/2022
शुक्र 20/11/2025	12:37:33	धनु	गुरु	सिंह	13:25:54	चन्द्र 09/03/2023
सूर्य 28/03/2026	19:14:06	धनु	शुक्र	कर्क	18:53:30	मंगल 14/07/2023
चन्द्र 27/10/2026	22:18:06	धनु	शनि	मेष	01:59:58	राहु 07/06/2024
मंगल 25/03/2027	18:27:42	सिंह	राहु व	मीन	18:42:24	गुरु 26/03/2025
राहु 12/04/2028	18:27:42	कुंभ	केतु व	कन्या	18:42:24	शनि 08/03/2026
गुरु 18/03/2029	02:28:59	सिंह	हर्ष	कन्या	02:52:24	बुध 13/01/2027
शनि 27/04/2030	16:27:36	तुला	नेप व	वृश्चि	00:22:19	केतु 21/05/2027
बुध 25/04/2031	14:46:09	सिंह	प्लूटो	सिंह	27:31:45	शुक्र 20/05/2028

व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट


23:18:33 चित्रपक्षीय अयनांश 23:25:02



अष्टकूट गुण सारिणी

कूट	वर	कन्या	अंक	प्राप्त	दोष	क्षेत्र
वर्ण	शूद्र	विप्र	1	0.00	--	जातीय कर्म
वश्य	मानव	जलचर	2	1.00	--	स्वभाव
तारा	मित्र	विपत	3	1.50	--	भाग्य
योनि	अश्व	मेष	4	3.00	--	यौन विचार
मैत्री	शनि	चन्द्र	5	0.50	--	आपसी सम्बन्ध
गण	राक्षस	देव	6	1.00	--	सामाजिकता
भकूट	कुम्भ	कर्क	7	0.00	हाँ	जीवन शैली
नाडी	आद्य	मध्य	8	8.00	--	स्वास्थ्य/संतान
कुल :			36	15.00		

कुल : 15 / 36



अष्टकूट मिलान

भकूट दोष कष्टदायक है क्योंकि दोनों के राशि स्वामियों में मित्रता नहीं है।
Mr. का वर्ग मेष है तथा Ms. का वर्ग मेष है। इन दोनों वर्गों में परस्पर सम है।
अष्टकूट मिलान के अनुसार Mr. और Ms. का मिलान ठीक नहीं है।

मंगलीक दोष मिलान

Mr. मंगलीक नहीं है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में एकादश भाव में स्थित है।
Ms. मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में सप्तम् भाव में स्थित है।

**त्रिषट् एकादशे राहू त्रिषट् एकादशे शनिः।
त्रिषट् एकादशे भौमः सर्वदोषविनाशकृत्।।**

वर या कन्या की कुंडली में से एक मंगलीक हो और दूसरे की कुंडली में 3,6,11 वें भावों में राहु, मंगल या शनि हो तो मंगलीक दोष समाप्त हो जाता है।

क्योंकि मंगल Mr. कि कुण्डली में एकादश भाव में स्थित है अतः मंगलीक दोष कट जाता है।

Mr. तथा Ms. में मंगलीक मिलान ठीक है।

निष्कर्ष

मिलान ठीक नहीं है क्योंकि अष्टकूट गुण नहीं मिलते हैं।

अष्टकूट फलादेश

वर्ण

Mr. का वर्ण शूद्र है तथा Ms. का वर्ण ब्राह्मण है। क्योंकि Ms. का वर्ण Mr. के वर्ण से ऊँचा है जिसके कारण यह अच्छा मिलान नहीं है। जिसके कारण दोनों के बीच हमेशा अहं का टकराव होगा। Ms. हमेशा श्रेष्ठता मनोग्रंथि से ग्रसित रहेगी तथा हमेशा स्वयं को पति से अधिक होशियार समझती रहेगी। कन्या की यही श्रेष्ठता का स्व अहसास उसके पति एवं बच्चों के विकास को बाधित कर रहेगा। साथ ही Mr. के अन्दर हीन भावना घर कर जायेगी।

वश्य

Mr. का वश्य द्विपद अर्थात् मनुष्य है एवं Ms. का वश्य जलचर है अतः यह मिलान अच्छा मिलान नहीं है। मनुष्य एवं जलचर दोनों प्रकृति के अंग हैं यद्यपि कि दोनों के स्वभाव, गुण, पसंद/नापसंद बिल्कुल अलग होते हैं तथा प्रकृति ने दोनों के अलग-अलग कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये हैं। इसलिये Mr. एवं Ms. दोनों सामान्यतः एक-दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा एक-दूसरे के लिए हानिकारक सिद्ध नहीं होंगे। सामान्यतः Mr. Ms. पर नियंत्रण स्थापित करने में समर्थ होगा। हालांकि यह अनुकूल मिलान नहीं है क्योंकि Mr. हमेशा Ms. के ऊपर हावी रहेगा।

तारा

Mr. की तारा मित्र तथा Ms. की तारा विपत है। Ms. की तारा विपत होने के कारण यह मिलान औसत मिलान ही है। यह मिलान Mr. एवं उसके परिवार के लिए दुर्भाग्य एवं नुकसान का कारण बन सकता है। परन्तु कड़े एवं लगातार प्रयासों के बाद परिणाम सुखदायी हो सकता है। संभव है कि Ms. का रुख सहयोगात्मक नहीं हो तथा आपसी विश्वास, प्रेम एवं समझ की कमी बनी रहे। अक्सर पति एवं पत्नी के बीच संघर्ष एवं लड़ाई-झगड़े रह सकते हैं तथा बच्चे भी इसका गलत फायदा उठायेंगे। जिसके कारण संभव है कि बच्चे योग्य एवं आज्ञाकारी नहीं हों।

योनि

Mr. की योनि अश्व है तथा Ms. की योनि मेष है। अर्थात् दोनों की योनि समान नहीं है। परन्तु इन दोनों योनि के बीच मित्रता का संबंध है अतः यह मिलान उत्तम मिलान रहेगा। जिसके कारण दोनों के बीच परस्पर प्रेम का भाव रहेगा। वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण रहेगा। दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे। आपसी समझ एवं विश्वास की भावना रहेगी। जिससे अपने पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में सभी कार्य आपसी सहमति से करेंगे एवं उनमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। जीवन में अक्सर धन प्राप्ति के सुअवसर मिलते रहेंगे। आय के नये-नये स्रोत बनेंगे तथा अच्छी आय के साथ-साथ अच्छी जमापूँजी होगी तथा परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। परस्पर प्रेम एवं सौहार्द्र की भावना के कारण दोनों एकदूसरे के प्रति अपनापन महसूस करेंगे। परिवार में शांति का वातावरण बना रहेगा। साथ ही सभी

मनोकामनाओं की पूर्ति होती रहेगी। वर और कन्या का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इन दोनों से उत्पन्न संतानें योग्य होंगी तथा वे भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। इनके जीवन में सफलता इनके कदम चूमेगी। इस प्रकार इनका वैवाहिक जीवन सुखमय जीवन ही रहेगा।

मैत्री

अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री कूट में Mr. का राशि स्वामी Ms. के राशि स्वामी से शत्रु का संबंध रखता है। जबकि Ms. का राशि स्वामी Mr. के राशि स्वामी के साथ सम रहता है। अतः यह मिलान ग्रह मैत्री के विचार से खराब मिलान है। ज्योतिष की दृष्टि से यदि एक साथी का राशि स्वामी दूसरे के लिए शत्रु किंतु दूसरा उसे सम मानता हो तो ऐसा कुंडली मिलान अच्छा नहीं माना जाता है। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई-झगड़ा, तनाव, मतभेद, एवं बहसबाजी का भाव बना रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यह बहस कभी-कभी हिंसक रूप धारण कर ले। जिससे शारीरिक चोट एवं मुकदमेबाजी के कारण आर्थिक हानि हो सकती है।

गण

Mr. का गण राक्षस तथा Ms. का गण देव है। अर्थात् Ms. का गण Mr. के गण से श्रेष्ठ है। अतः यह मिलान अच्छा मिलान नहीं है। जिसके कारण Mr. निर्दयी, कठोर, निष्ठुर एवं झगड़ालू हो सकते हैं। साथ ही Mr. का Ms. के साथ क्रूर व्यवहार करने की संभावना बनी रह सकती है। पति-पत्नी, अक्सर कुत्ते-बिल्लियों की भांति झगड़ा कर सकते हैं एवं परिवार में अक्सर अशांति का माहौल बना रहेगा। Ms. हमेशा हर कदम पर समझौता करने की कोशिश करती रहेगी ताकि दोनों का संबंध बना रहे।

भकूट

Mr. से Ms. की राशि षष्ठम भाव में स्थित है तथा Ms. से Mr. की राशि अष्टम भाव में स्थित है। जिसके कारण यह मिलान बिल्कुल अच्छा मिलान नहीं है। क्योंकि इसमें षडाष्टक दोष लग रहा है। जिसके कारण Mr. लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं तथा अक्सर उनके जलने अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहेगी। Ms. को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं तथा परिवार के सदस्यों से वैमनस्य होने की संभावना भी रहेगी। पति-पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद रह सकते हैं तथा अक्सर लड़ाई-झगड़े होते रहेंगे। दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पूरे परिवार के लिए समस्या एवं पीड़ा बन जायेगी। मुकदमेबाजी होने से अलगाव एवं तलाक की संभावना भी रहेगी।

नाड़ी

Mr. की नाड़ी आद्य है तथा Ms. की नाड़ी मध्य है। अर्थात् दोनों की नाड़ी समान नहीं है, जो कि अष्टकूट मिलान की दृष्टि से दोष मुक्त है। अर्थात् यह मिलान अति उत्तम मिलान है। आद्य एवं मध्य नाड़ी का मिलान अति उत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें जीवन के तीन आवश्यक घटकों में से दो वात एवं पित्त का समन्वय है। जीवन के अस्तित्व के लिए वात एवं पित्त का समन्वय आवश्यक है। जिसके कारण आपकी संतान काफी बुद्धिमान, स्वस्थ,

मानसिक रूप से दृढ़ एवं सौभाग्यशाली होंगी। जो भौतिकवादी विश्व में सुविधा संपन्न जीवन जीने के लिए आवश्यक है।



मेलापक फलित

स्वभाव

Mr. की राशि वायुतत्व युक्त कुम्भ तथा Ms. की राशि जलतत्व युक्त कर्क राशि है। वायु एवं जलतत्व में नैसर्गिक समानता तथा मित्रता होने के कारण इनके संबंधों में मधुरता रहेगी तथा स्वभावगत समानताएं भी विद्यमान होंगी फलतः वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अतः मिलान शुभ रहेगा।

Mr. की राशि का स्वामी शनि तथा Ms. की राशि का स्वामी चन्द्रमा परस्पर सम एवं शत्रुराशियों में स्थित है। अतः ऐसी ग्रह स्थिति के प्रभाव से इनके मध्य मतभेद अधिक तथा समता का भाव अल्प रहेगा। साथ ही एक दूसरे के गुणों की अपेक्षा कमियों पर विशेष ध्यान देंगे जिससे परस्पर तनाव एवं कटुता का भाव होगा। Mr. और Ms. के मध्य प्रेम तथा सहानुभूति के भाव की न्यूनता रहेगी तथा सुख दुख में भी एक दूसरे को सहयोग अल्प मात्रा में ही प्रदान करेंगे जिससे वैवाहिक जीवन विशेष सुखी नहीं रहेगा।

Mr. और Ms. की राशियां परस्पर षष्ठ एवं अष्टम भाव में पड़ती है। शास्त्रानुसार यह भकूट दोष माना जाता है। इसके प्रभाव से उपरोक्त अशुभ प्रभावों में वृद्धि होगी तथा अनावश्यक मतभेद विरोध एवं वैमनस्य का भाव रहेगा जिससे संबंधों में कटुता की प्रबलता रहेगी। साथ ही एक दूसरे की कमियों की विशेष ध्यान रहेगा तथा आलोचनात्मक दृष्टि कोण भी होगा। अतः ऐसी स्थिति में Mr. और Ms. का दाम्पत्य जीवन अशांति पूर्ण रहेगा।

Mr. का वश्य मानव तथा Ms. का वश्य जलचर है। मानव एवं जलचर में नैसर्गिक विषमता होने के कारण अभिरुचियों में भिन्नता रहेगी तथा शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकताएं भी अलग रहेंगी। फलतः काम संबंधों में भी एक दूसरे को सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रखने में असमर्थ रहेंगे जिससे दाम्पत्य संबंधों में भी कटुता का भाव उत्पन्न होगा।

Mr. का वर्ण शूद्र तथा Ms. का वर्ण ब्राह्मण है। अतः इनकी कार्य क्षमताओं में भी विभिन्नता रहेगी। Mr. की प्रवृत्ति किसी भी कार्य को परिक्षम पूर्वक करने होगी लेकिन Ms. धार्मिक शैक्षणिक तथा अन्य सत्कार्यों को करने में प्रवृत्त रहेंगी।

धन

Mr. और Ms. दोनों की तारा परस्पर सम है। अतः आर्थिक स्थिति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा तथा सामान्य गति से धन एवं लाभ अर्जित करने में दोनों तत्पर रहेंगे। भकूट भी सम ही रहेगा जिससे उनके लाभमार्ग स्वबुद्धिमता एवं परिश्रम से प्रशस्त रहेंगे। मंगल का भी उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार उनके अर्थिक स्तर पर कोई विशेष नाटकीय परिवर्तन की संभावना नहीं होगी परन्तु सामान्य जीवन धनऐश्वर्य से युक्त होकर व्यतीत होगा।

इसके साथ ही कोई विशेष या अचानक लाभ के योगों में भी न्यूनता होगी तथा

आर्थिक स्तर अपने ही अनुकूल रहेगा जिससे वे आर्थिक रूप से सन्तुष्टि की अनुभूति करेंगे।

स्वास्थ्य

Mr. का जन्म आद्य तथा Ms. का जन्म मध्य नाड़ी में हुआ है। अतः नाड़ी दोष का इनके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा तथा उत्तम स्वास्थ्य का उपभोग करते हुए ये अपना दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करेंगे। लेकिन यदा कदा मंगल का दुष्प्रभाव Mr. के स्वास्थ्य पर होगा। इसके प्रभाव से वे समय समय पर पित या गर्मी के द्वारा कष्टानुभूति प्राप्त करेंगे तथा हृदय संबन्धी परेशानियां भी हो सकती है। साथ ही धातु या काम क्रिया संबन्धी शिथिलता का भाव भी होगा। इससे परस्पर यदा कदा असन्तुष्टि का भाव उत्पन्न हो सकता है लेकिन इसका कोई गंभीर परिणाम नहीं होगा तथा सामान्यतया दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए Mr. को नियमित रूप से हनुमानजी की पूजा तथा मंगलवार का व्रत करना चाहिए।

संतान

संतति प्राप्ति की दृष्टि से Mr. और Ms. का मिलान उत्तम रहेगा। इसके प्रभाव से उन्हें उचित समय पर संतति की प्राप्ति होगी तथा इसमें अनावश्यक विलम्ब भी नहीं होगा। साथ ही बच्चों के जन्म में भी सामान्य अंतर रहेगा जिससे उनका पालन पोषण उचित ढंग से करने में आसानी रहेगी। इसके अतिरिक्त Mr. और Ms. के पुत्र एवं कन्या संतति की संख्या समान होगी।

प्रसव के विषय में Ms. के मन में पहले से ही अनावश्यक भय की अनुभूति रहेगी लेकिन Ms. को इस विषय में किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए तथा सामान्य रूप से गर्भावस्था का समय व्यतीत करना चाहिए। प्रसव काल में Ms. को प्रसूति या अन्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा सुंदर स्वस्थ एवं आकर्षक बच्चों को जन्म देने में सफल होंगी। साथ ही स्वयं भी स्वस्थ एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगी।

संतति पक्ष से Mr. और Ms. सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रहेंगे तथा बच्चे अपने क्षेत्र में अपनी बुद्धिमता तथा योग्यता से उन्नतिमार्ग पर अग्रसर होंगे। साथ ही व्यवहार कुशलता का गुण भी उनमें विद्यमान रहेगा। माता पिता के प्रति उनका पूर्ण आदर तथा आज्ञापालन का भाव रहेगा तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध वे कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार Mr. और Ms. का पारिवारिक जीवन सुख शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा।

ससुराल-सुश्री

Ms. के अपनी ससुराल के लोगों से संबंधों में वांछित मधुरता रहेगी परन्तु यदा कदा सास से कुछ मतभेद रहेगा जिससे उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथापि यदि Ms. धैर्य एवं बुद्धिमता से कार्य लें तो सास की सहानुभूति प्राप्त हो सकती है।

ससुर देवर एवं ननदों से Ms. के संबन्ध मधुर रहेंगे तथा उनसे वांछित स्नेह एवं

सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। ससुर की सुख सविधा एवं आराम का वह पूर्ण ध्यान रखेंगी तथा वे भी उसकी सेवा भावना से प्रसन्न तथा सन्तुष्ट रहेंगे। देवर एवं ननद से भी Ms. का व्यवहार मित्रता पूर्ण रहेगा तथा वे भी Ms. से प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार वह ससुराल के लोगों से सामंजस्य स्थापित करके आनंदानुभूति प्राप्त करेंगी।

ससुराल-श्री

Mr. तथा उनकी सास के आपसी संबंधों में विशेष मधुरता नहीं रहेगी तथा कई मामलों में उनके मध्य काफी प्रबल मतभेद समय समय पर दृष्टि गोचर होंगे। अतः यदि परस्पर सामंजस्य एवं बुद्धिमता के भाव का प्रदर्शन किया जाय तो इन मतभेदों में न्यूनता आएगी तथा आपसी संबंधों में मधुरता के भाव की वृद्धि होगी जिससे स्नेह एवं सम्मान का भाव बना रहेगा।

लेकिन ससुर के साथ में Mr. के संबंध अच्छे रहेंगे तथा वह उन्हें अपने पिता की तरह मान सम्मान तथा सेवा का भाव प्रदान करेंगे। साथ ही समयानुसार वह Mr. को अपनी ओर से बहुमूल्य तथा आवश्यक सलाह भी प्रदान करते रहेंगे एवं उन्हें अपने पुत्र के समान अपनत्व तथा स्नेह प्रदान करेंगे। साले एवं सालियों के साथ ही Mr. के संबंध अच्छे रहेंगे तथा उनसे वांछित आदर सहयोग एवं सहानुभूति प्राप्त होती रहेगी। साथ ही उनसे सामंजस्य का भाव भी रहेगा। इस प्रकार ससुराल का दृष्टिकोण Mr. के प्रति अनुकूल ही रहेगा।